

फा.सं.7(1)/2010-ले.क्र.
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक: 26 फरवरी, 2013

निविदा सूचना

विषय:- हैंड बैग/लैपटॉप बैग की आपूर्ति के लिए दर-सूची (कोटेशन) आमंत्रित करने के संबंध में।

अप्रैल और मई, 2013 माह के दौरान होने वाली विभिन्न सरकारी बैठकों/कार्यक्रमों के लिए 520 (पांच सौ बीस केवल) हैंडबैग्स/लैपटॉप बैग्स की आपूर्ति के लिए जाने-माने निर्माताओं/प्राधिकृत व्यापारियों/पुनर्विक्रेताओं/प्रदाताओं से मूल्य दर-सूची आमंत्रित की जाती हैं। बैगों को नीचे विनिर्दिष्ट रूप में उनके सामने दर्शाई तारीखों और पत्तों पर इस मंत्रालय के अधिकारियों को सौंपा जाएगा:-

क्र.सं.	सुपुर्दगी की तारीख	मात्रा	परेषिती पता
1.	11 अप्रैल, 2013	60 बैग	जवाहर नवोदय विद्यालय, पिपरसैंड, पी.ओ. सरोजनी नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
2.	16 अप्रैल, 2013	75 बैग	केंद्रीय विद्यालय, हिब्लल, सदाशिवनगर पोस्ट, बेंगलौर (कर्नाटक)-560080
3.	21 अप्रैल, 2013	80 बैग	केंद्रीयविद्यालय, पी.ओ. सरबोदया नगर, जिला पुरी (ओडिशा)-752002
4.	25 अप्रैल, 2013	60 बैग	जवाहर नवोदय विद्यालय, कोणार्क, जिला पुरी (ओडिशा)-752111
5.	28 अप्रैल, 2013	80 बैग	केंद्रीय विद्यालय, नं.5, सेक्टर-7, परमहंस मार्ग, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)-302020
6.	1 मई, 2013	75 बैग	केंद्रीय विद्यालय, जुथोग कैंट, शिमला (हिमाचल प्रदेश)-171008
7.	मई, 2013 का आखिरी सप्ताह	90 बैग	93, संसद भवन, नई दिल्ली-110001

इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित शर्तों पर अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं :-

1. प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली द्विबोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के माध्यम से प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।
2. बोलीदाता का एक वैध पैन नंबर और टिन नंबर होना चाहिए तथा उसकी सत्यापित प्रतियां भी भेजनी होगी।
3. प्रत्येक बोलीदाता को आपूर्ति किए जाने वाले बैग का संपल मोहरबंद लिफाफे में भेजना आवश्यक होगा। करार को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीदाताओं के संपल बैग लौटा दिए जाएंगे। सफल बोलीदाता का संपल बैग अपेक्षित मर्दों की आपूर्ति करने के बाद लौटा दिया जाएगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता को पूर्ति किए जाने वाले माल की कुल कीमत के 5 प्रतिशत के बराबर मूल्य की बयाना राशि (ईएमडी), "पीएओ, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली" के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

- के रूप में जमा करनी आवश्यक होगी। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि करार को अंतिम रूप देने के बाद लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बयाना राशि अपेक्षित मर्दों की आपूर्ति करने के बाद लौटा दी जाएगी। विक्रेताओं को मर्दों की आपूर्ति अच्छी हालत में करनी होगी।
5. कोटेशन मोहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए और उस पर “हैंडबैग्स/लैपटॉप बैग्स की आपूर्ति के लिए कोटेशन” लिखा होना चाहिए और इसे डाक अथवा संदेशवाहक द्वारा भेजा/पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वह मुझ तक सोमवार, 11 मार्च, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक अथवा उससे पहले पहुंच जाए।
 6. बोलीदाता मूल्य और वैट/कर, यदि कोई है तो, अलग से उल्लेख करें।
 7. बोलीदाता परेषिती पते के किसी भी संख्या के लिए बोली लगा सकते हैं।
 8. बोलियों को उसी दिन अर्थात् 11 मार्च, 2013 को अपराह्न 3.30 बजे उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के कक्ष में खोला जाएगा। फर्मों के प्राधिकृत प्रतिनिधि जो कोटेशनों के खुलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है बशर्ते कि वह अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करें और फर्म के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकार होना चाहिए।
 9. इस निविदा सूचना को संसदीय कार्य मंत्रालय की वैबसाइट <http://www.mpa.gov.in> और eprocure.gov.in (सीपीपी पोर्टल) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
 10. करार/आपूर्ति आदेश के निष्पादन में कोई विवाद उत्पन्न होने की सूरत में यह मामला इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेज दिया जाएगा।
 11. करार/आपूर्ति आदेश में कोई विवाद, यदि कोई है, उत्पन्न होने पर विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों में विचार होगा।
 12. किसी भी रूप में अधूरी बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी और उन्हें नामंजूर किया जा सकता है।
 13. संसदीय कार्य मंत्रालय को किसी एक बोली अथवा सभी बोलियों को पूरा अथवा भाग के रूप में अस्वीकार करने का अधिकार होगा अथवा मंत्रालय बिना कोई कारण बताए सबसे कम बोलीदाता को करार नहीं भी दे सकता है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय सभी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(रामेश्वर प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नंबर: 23034899

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि उनके द्वारा इस काम के लिए अनुबंधित किए गए आपूर्तिकर्ता, यदि इच्छुक हैं तो उन्हें अपनी दरें बतानी होंगी।
2. तकनीकी निदेशक, एन आई सी, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि निविदा सूचना को मंत्रालय की वैबसाइट पर लोड कर दिया जाए और 26.03.2013 को अपराह्न 3.00 बजे अभिलेखागार में शिफ्ट कर दिया जाए।